

**अति तत्काल**

संख्या ए-11013/2/2011-डीडीआईए

भारत सरकार  
शहरी विकास मंत्रालय  
(दिल्ली प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 7 जुलाई, 2014

### **कार्यालय ज्ञापन**

**विषय:** मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) में अध्यक्ष (अंशकालिक) और सदस्य (अंशकालिक) के पद को भरने के बारे में विज्ञापन अपलोड करना।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह मंत्रालय, दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) में अध्यक्ष (अंशकालिक) और सदस्य (अंशकालिक) के पद भरने की प्रक्रिया में है और इस संबंध में, अनुरोध है कि इसके साथ संलग्न विज्ञापन इस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानि <http://moud.gov.in> पर तत्काल अपलोड किया जाए। इसके अलावा, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किए जाने वाले लघु विज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीयूएसी में अध्यक्ष (अंशकालिक) और सदस्य (अंशकालिक) के पदों पर नियुक्ति के लिए दिशा- निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् [www.moud.gov.in](http://www.moud.gov.in) (pathway:Quick Access-Notification-Delhi Notification) पर देखे जा सकते हैं।

(एस.बी. प्रसाद)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 23061478

सेवा में  
सुश्री शर्मिष्ठा दास गुप्ता,  
तकनीकी निदेशक,  
एनआईसी, शहरी विकास मंत्रालय

संख्या ए-11013/2/2011-डीडीआईए

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110 011

**विषय:** दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) में अध्यक्ष (अंशकालिक) और सदस्य (अंशकालिक) का पद भरना।

शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी), जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक संगठन है, में अध्यक्ष (अंशकालिक) और सदस्य (अंशकालिक) के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने जा रहा है। डीयूएसी अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और व्यक्तियों के बीच में से नियुक्त कम से कम दो और चार से अनधिक ऐसे सदस्य होंगे और जिन्हें केन्द्र सरकार के अभिमत में, प्लास्टिक एवं दृश्य कलाओं और शहरी विकास की समझ व इनमें दिलचस्पी हो अथवा जिन्हें वास्तुकला अथवा कला की विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक ज्ञान हो।

2. कथित पदों पर नियुक्ति के लिए विनिर्धारित दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं:

1	पद का नाम	अध्यक्ष (अंशकालिक), दिल्लीह शहरी कला आयोग (डीयूएसी)	अध्यक्ष (अंशकालिक), दिल्लीह शहरी कला आयोग (डीयूएसी)
2	पदों की संख्या	एक	दो से कम नहीं और चार से अधिक नहीं
3	वर्गीकरण	समूह 'क'	समूह 'क'
4	वेतनमान	समय-समय पर यथा संशोधित, डीयूएसी (सेवा के नियम व शर्तों) नियमावली, 1974 के अनुसार, वर्तमान में, अध्यक्ष (अंशकालिक) 1500/- प्रतिमाह के शुल्कवक्रे लिए पात्र है।	समय-समय पर यथा संशोधित, डीयूएसी (सेवा के नियम व शर्तों) नियमावली, 1974 के अनुसार, वर्तमान में आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिए एक कलेंडर माह में अधिकतम 12 दिन की सीमा तक प्रति बैठक 950/- रूपए प्रतिमाह है।
5	चाहे चयन या गैर-चयन पद	चयन	चयन

6	आयु सीमा	नियुक्ति की तारीख को 65 वर्ष से कम	नियुक्ति की तारीख को 65 वर्ष से कम
7	शैक्षिक योग्यता और अनुभव	व्यक्तियों शहरी क्षेत्र में प्रशासनिक/ व्यावसायिक अनुभव, स्थानीय निकायों के कामकाज, शहरी वातावरण, विरासत, कला, संस्कृति, वास्तुकला, आदि में रुचि रखने वाले और शहरी नियोजन, वास्तुकला, शहरी डिजाइन, दृश्य कला आदि के क्षेत्र में तकनीकी/व्यावसायिक विशेषज्ञता या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा।	किसी मान्यता - प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से वास्तुकला/ नगर नियोजन में स्नातक डिग्री या समकक्ष। संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 20 साल व्यावसायिक अनुभव।
8	नियुक्ति की अवधि	तीन वर्ष	तीन वर्ष
9	चयन का तरीका	सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में चयन समिति और वास्तुकला, शहरी योजना और संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्र से विशेषज्ञ सदस्यों वाली समिति द्वारा चयन।	सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में चयन समिति और वास्तुकला, शहरी योजना और संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्र से विशेषज्ञ सदस्यों वाली समिति द्वारा चयन।

3. इच्छुक उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों, अपना नाम, पता, शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, जन्म तिथि, शहरी पर्यावरण, कला, संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के क्षेत्र में अनुभव, पद, जिसके लिए आवेदन किया है व अन्य संबंधित सूचना सहित पूरा विवरण देते हुए अपने आवेदन पत्र उप सचिव (दिल्लीसप्रभाग), शहरी विकास मंत्रालय, कक्ष संख्या 240, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110 011 को भेजें ताकि इन्हें डीयूएसी के अध्यक्ष (अंशकालिक) और सदस्य (अंशकालिक) के पदों हेतु इस मंत्रालय द्वारा बनाए गए प्रस्तावित पैनल में शामिल किया जा सके। इस मंत्रालय में आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से चार सप्ताह है। जिस लिफाफे में आवेदन हो, उस पर आवेदक द्वारा उस पद का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए आवेदन किया गया है।

-----